



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

28 अग्रहायण, 1940 (श०)

संख्या- 1134 राँची, बुधवार,

19 दिसम्बर, 2018 (ई०)

उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग।

संकल्प

17 दिसम्बर, 2018

संख्या :- 1/नीति-27/2018- 2091-- झारखंड राज्य में खुदरा उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती ई- लॉटरी विधि से निष्पक्ष एवं पारदर्शी रूप से सम्पन्न कराने के लिए वित्त विभागीय नियमावली के नियम 245 के तहत नियम 235 को शिथिल करते हुए NeML (NCDEX e-Markets Ltd.) का चयन मनोनयन के आधार पर राज्य सरकार द्वारा दिनांक 6 दिसम्बर, 2018 को आहत मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया है।

2. नई नीति के तहत ई-लॉटरी के माध्यम से खुदरा अनुज्ञाधारी का चयन करने के लिए NeML द्वारा निम्नलिखित शर्तों के तहत सॉफ्टवेयर एवं एतद् संबंधी पोर्टल विकसित किया जायेगा :-

- NeML द्वारा ई- लॉटरी हेतु सॉफ्टवेयर एवं पोर्टल विकसित करने के लिए 35 लाख रुपये की सीमा तक प्रति आवेदन रु0 500 + GST की दर से सेवा शुल्क लिया जायेगा।

- ii. 35 लाख रुपये से उपर सर्विस चार्ज संग्रहित करने पर NeML अधिक संग्रहित की गई राशि को विभाग को वापस कर देगा। NeML द्वारा विभाग को वापस किये गये राशि को विभाग राजस्व शीर्ष में जमा करेगा।
- iii. 35 लाख रुपये से कम सेवा शुल्क प्राप्त होने पर विभाग शेष राशि नियमानुसार इकरारनामे के अनुसार NeML को देय करेगा।
3. उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग एवं NeML के बीच सभी आवश्यक शर्तों का उल्लेख करते हुए एक विस्तृत एकरारनामा हस्ताक्षरित किया जायेगा।
4. यह संकल्प निर्गत की तिथि से प्रवृत्त होगी।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

वीरेन्द्र कुमार सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।
